

04 अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, 29 किलो ग्राम अफीम डोडा बरामद

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जिसमें 04 अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 29 किलो ग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया।

थाना कटरा पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी मे भ्रमणशील थी तो मुखबिर की सूचना पर दिनांक 31.10.20 को समय करीब 14.55 बजे ग्राम रसेवन से पहले नहर पुलिया के पास अभियुक्तगण 1. नेमचन्द पुत्र हेमराज 2. मोहित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार 3. मनोहर लाल पुत्र कृष्ण पाल 4. प्रेमप्रकाश पुत्र धीरसिंह को कुल 29 किलो ग्राम अफीम डोडा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटरा पर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय पेश के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ जारी है। पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश में आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

1. नेमचन्द पुत्र हेमराज निवासी ग्राम केरुआ थाना फरीदपुर जनपद बरेली
2. मोहित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार निवासी ग्राम बरगमा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
3. मनोहर लाल पुत्र कृष्ण पाल निवासी ग्राम केरुआ थाना फरीदपुर जनपद बरेली
4. प्रेमप्रकाश पुत्र धीरसिंह निवासी रसेवन थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त नेमचन्द उपरोक्त से 8 किलो ग्राम अफीम डोडा बरामद
2. मोहित कुमार उपरोक्त से 8 किलो ग्राम अफीम डोडा बरामद
3. मनोहर लाल उपरोक्त से 7 किलो ग्राम अफीम डोडा बरामद
4. प्रेमप्रकाश उपरोक्त को 6 किलो ग्राम अफीम डोडा बरामद
5. दो मोटर साइकिल 1. स्पलन्डर प्लस मो 0न 0सा0UP-25-CP-6621 काला रंग 2. HF डीलक्स मो 0न 0सा0 UP-25-BZ-0201 रेड ब्लैक कुल 04 अभियुक्तगणों से 29 किलो ग्राम अफीम डोडा बरामद।

आपराधिक इतिहास:-

1. नेमचन्द पुत्र हेमराज निवासी ग्राम केरुआ थाना फरीदपुर जनपद बरेली
मु0अ0सं0 528/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0
2. मोहित कुमार पुत्र सर्वेश कुमार निवासी ग्राम बरगमा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
मु0अ0सं0 529/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0
3. मनोहर लाल पुत्र कृष्ण पाल निवासी ग्राम केरुआ थाना फरीदपुर जनपद बरेली
मु0अ0सं0 530/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0
4. प्रेमप्रकाश पुत्र धीरसिंह निवासी रसेवन थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
मु0अ0सं0 531/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.श्री हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा शाहजहाँपुर।
- 2.व0उ0नि0 सन्तोष कुमार थाना कटरा जनपद शाह0 ।
- 3.हे0का0 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाह0 ।
- 4.का0 निर्मल सिंह थाना कटरा जनपद शाह0 ।
- 5.का0 प्रभात कुमार थाना कटरा जनपद शाह0 ।
- 6.का0 रोनिश तोमर थाना कटरा जनपद शाह0 ।
- 7.का0 नितिन कुमार थाना कटरा जनपद शाह0 ।
- 8.का0 नवीन कुमार थाना कटरा जनपद शाह0 ।
- 9.का0 विकास कुमार थाना कटरा जनपद शाह0 ।